

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 39] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 21, 1973/फाल्गुन 2, 1894

No. 39] NEW DELHI. WEDNESDAY, FEBRUARY 21, 1973/PHALGUNA 2, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE

(Department of Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st February 1973

G.S.R. 68(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with the proviso there to of section 15 of the Architects Act 1972 (20 of 1972) the Central Govt. after consultation with the Expert Committee set up under the proviso to sub-section (2) of section 14 of the said Act hereby directs that the architectural qualifications granted by the Universities or other institutions in the countries outside India, mentioned below shall be recognised qualifications for the purposes of this Act, namely:—

AUSTRALIA

- 1 Degree of Bachelor of Architecture awarded by the University of Adelaide.
2. Degree of Bachelor of Architecture awarded by the University of Melbourne.
- 3 Degree of Bachelor of Architecture awarded by the University of New South Wales, Kensington.

GERMANY

- 4 Diploma-Ingenieur awarded by the Technical Universities in Federal Republic of Germany in Architecture.

SWITZERLAND

5. Doctorate of Technical Sciences in Architecture awarded by Swiss Federal Institute of Technology, Zurich (Recognised at par with Ph. D. degree of the Indian Universities).

U.K.

6. Degree in architecture awarded by the Universities of Cambridge, Durham, Edinburgh, Glasgow, Liverpool, London, Manchester, Sheffield, Wales.
7. Associateship Examination of the Royal Institute of British Architects, London. (A.R.I.B.A. Examination):

U.S.A.

8. (a) Bachelors Degree in Architecture awarded by the American Universities/Institutions, the curricula of which are accredited to the National Architectural Accrediting Board (USA).

1. Arizona, University of Tucson, Arizona.
2. Arizona State University Tempe, Arizona.
3. Arkansas University of Fayetteville, Ark.
4. Auburn University, Auburn, Ala.
5. California State Polytechnic College San Luis Obispo, Calif.
6. Carnegie Mellon University, Pittsburgh, Pa.
7. Case Western Reserve University Cleveland, Ohio.
8. Catholic University, Washington, D.C.
9. Cincinnati, University of Cincinnati, Ohio.
10. The City College of the City University of N.Y.
11. Clemson University of Clemson, S.C.
12. Colorado, University of Boulder, Colo.
13. Columbia University, New York.
14. Cooper Union, New York.
15. Cornell University, Ithaca, N.Y.
16. Detroit University of Detroit, Mich.
17. Florida University of Gainesville, Florida.
18. Georgia Institute of Technology Atlanta, Ga.
19. Harvard University Cambridge, Mass.
20. Houston, University of Houston, Texas.
21. Howard University Washington, D.C.
22. Illinois Institute of Technology Chicago, Illinois.
23. Illinois University of Chicago Circle Chicago, Ill.
24. Illinois, University of Urbana, Ill.
25. Iowa State University Ames, Iowa.
26. Kansas State University, Manhattan, Kansas.
27. Kansas, University of Lawrence, Kansas.
28. Kent State University, Kent, Ohio.
29. Kentucky, University of Lexington, Ky.
30. Louisiana State University, Baton Rouge, La.
31. Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Mass.
32. Miami University Oxford, Ohio.
33. Michigan, University of Ann Arbor, Michigan.
34. Minnesota, University of Minneapolis, Minn.
35. Montana State University Bozeman, Montana.
36. Nebraska, University of Lincoln, Nebraska.
37. North Carolina State University Raleigh, N.C.

38. Notre Dame, University of Notre Dame, Indiana.
39. Ohio State University Columbus, Ohio.
40. Oklahoma State University, Stillwater, Okla.
41. Oklahoma University of Norman, Okla.
42. Oregon, University of Eugene, Ore.
43. Pennsylvania, State University, University Park, Pa.
44. Pratt Institute, Brooklyn, N.Y.
45. Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, N.Y.
46. Rhode Island, School of Design Providence, R.I.
47. Rice University, Houston, Texas.
48. Southern California University of Los Angeles, Calif.
49. Syracuse University Syracuse, N.Y.
50. Texas A & M University College Station, Texas.
51. Texas Technological University Lubbock, Texas.
52. Texas University of Austin, Texas.
53. Tulane University, New Orleans, La.
54. Utah, University of Salt Lake City, Utah.
55. Virginia University of Charlottesville, Va.
56. Virginia Polytechnic, Institute, Blacksburg, Va.
57. Yale University New Haven, Conn.
58. Ball State University, Muncie, Indiana.
59. Hampton Institute, Hampton, Virginia.
60. University of Hawaii, Honolulu.
61. Idaho, University of Moscow, Idaho.
62. North Dakota State University, Fargo, North Dakota.
63. Southwestern Louisiana, University of Lafayette, Louisiana.
64. Tennessee, University of Knoxville, Tenn.
65. Tuskegee Institute, Alabama.
66. Washington State University, Washington.
67. Boston Architectural Center, Boston, Massachusetts.

(b) Graduate (Master's and Doctor's) Degrees in Architecture awarded by Accredited American Universities/Institutions.

1. California, University of Berkeley, Calif.
2. Catholic University, Washington, D.C.
3. The City College of the City University of N.Y. New York.
4. Clemson University of Clemson, S.C.
5. Cornell University, Ithaca, N.Y.
6. Florida University of Gainesville, Florida.
7. Harvard University Cambridge, Mass.
8. Howard University Washington, D.C.
9. Illinois, University of Urbana, Ill.
10. Iowa State University Ames, Iowa.
11. Kansas, State University. Manhattan, Kansas.
12. Kansas, University of Lawrence, Kansas.
13. Kent State University, Kent, Ohio.
14. Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Mass.
15. Michigan, University of Ann Arbor, Michigan.
16. Minnesota, University of Minneapolis, Minn.
17. Nebraska, University of Lincoln, Nebraska.
18. New Mexico, University of Albuquerque, N.M.

19. Oklahoma State University, Stillwater, Okla.
20. Oklahoma University of Norman, Okla.
21. Oregon, University of Eugene, Ore.
22. Pennsylvania, University of Philadelphia, Pa.
23. Pratt Institute, Brooklyn, N.Y.
24. Princeton University, Princeton, N.J.
25. Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, N.Y.
26. Rice University, Houston, Texas.
27. Southern California University of Los Angeles, Calif.
28. Syracuse University Syracuse, N.Y.
29. Texas A & M University College Station, Texas.
30. Utah, University of Salt Lake City, Utah.
31. Virginia Polytechnic Institute, Blacksburg, Va.
32. Washington University St. Louis, Mo.
33. Washington University of Seattle, Wash.
34. Yale University New Haven, Conn.
35. University of Hawaii, Honolulu.
36. Idaho, University of Moscow, Idaho.

9. Certificate of Fellowship awarded by the Frank Lloyd Wright Foundation, USA.

YUGOSLAVIA

10. Doctorate Degree in Architecture awarded by the Zagreb University, Yugoslavia.

[No. F. 12-3/72-T.1.]

A. B. CHANDIRAMANI,
Jt. Edul. Adviser.

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय

(शिक्षा विभाग),

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 1973

जी० एस्० आर० 68 (अ).—वास्तुविद् अधिनियम, 1972 (1972 का 20) की धारा 15 की उपधारा (1) के परन्तुक के साथ पठित उक्त उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन गठित विशेषज्ञ समिति से परामर्श के पश्चात् केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि भारत से बाहर निम्न-लिखित विदेशी विश्वविद्यालयों अथवा अन्य संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई वास्तुशिल्पी अर्हतायें इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये मान्यताप्राप्त अर्हतायें मानी जायेंगी, अर्थात् :—

ऑस्ट्रेलिया

1. ग्रैलेड विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गयी वास्तु शिल्प स्नातक की डिग्री ।
2. मेलबोर्न विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई वास्तु शिल्प स्नातक की डिग्री ।
3. न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय, कैनसिंगटन द्वारा प्रदान की गयी वास्तु शिल्प स्नातक की डिग्री ।

जर्मनी

4. वास्तु शिल्प में जर्मन संघीय गणतन्त्र में तकनीकी विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान किया गया डिप्लोमा इंजीनियर ।

स्वीटजरलैण्ड

5. स्विस्-प्रौद्योगिकी संघीय संस्थान, ज्यूरिच द्वारा वास्तुशिल्प में प्रदान किया गया तकनीकी विज्ञानों का डाक्टरेट ।

(यह भारतीय विश्वविद्यालयों के पी-एच० डी० डिग्री के समकक्ष मान्यताप्राप्त है) ।

इंग्लैण्ड

6. कैम्ब्रिज, दुरहम, एडिनबर्ग, ग्लासगो, लीवरपूल, लंदन, मानचेस्टर, शी फील्ड, वेल्स विश्व-विद्यालयों द्वारा वास्तुशिल्प में प्रदान की गयी डिग्री ।
7. रायल इंस्टीट्यूट आफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स, लंदन की एसोसिएटशिप परीक्षा ।
(ए० आर० आई० बी० ए० परीक्षा)

अमरीका

8. (क) अमरीकी विश्वविद्यालयों, संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई वास्तुशिल्प में स्नातक डिग्रियां, जिनकी पाठ्यचर्या राष्ट्रीय वास्तुशिल्प प्रत्याक्षित मंडल (अमरीका) के लिये मान्यता-प्राप्त हैं ।

1. अरीजोना, टुकसन विश्वविद्यालय, अरीजोना ।
2. अरीजोना राज्य विश्वविद्यालय टेम्पे, अरीजोना ।
3. फोयटेबिले अर्कानास विश्वविद्यालय, आर्क ।
4. ओबर्न विश्वविद्यालय, ओबर्न, अला ।
5. कैलिफोर्निया स्टेट पोलिटेक्निक कालेज, सान लुईस ओबिस्को, कैलिफ ।
6. कार्नेगी मेलान विश्वविद्यालय, पिट्सबर्ग, पा ।
7. केस वेस्टर्न रिजर्व विश्वविद्यालय क्लेवलैण्ड, ओहियो ।
8. कैथोलिक विश्वविद्यालय, वाशिंगटन (डी० सी०) ।
9. सिनसिन्टी, सिनसिन्टी विश्वविद्यालय, ओहियो ।
10. दि० सीटी कालेज आफ दि सीटी विश्वविद्यालय, न्यूयार्क ।
11. क्लेमसन विश्वविद्यालय, क्लेमसन, एस० सी० ।
12. कोलोराडो, बाऊलडर विश्वविद्यालय, कोलो ।
13. कोलम्बिया विश्वविद्यालय, न्यूयार्क ।
14. कूपर यूनियन, न्यूयार्क ।
15. कार्नेल विश्वविद्यालय, इथाका, न्यूयार्क ।
16. डेट्रायट विश्वविद्यालय, डेट्रायट, मिच ।
17. फ्लोरिडा विश्वविद्यालय, गेनेसविल्ले, फ्लोरिडा ।
18. जोजिया इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलोजी, एटलांटा, गा ।
19. हार्वर्ड विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज, मास ।
20. हाऊस्टन विश्वविद्यालय, हाऊस्टन, टैक्सास ।
21. हार्वर्ड विश्वविद्यालय, वाशिंगटन, डी० सी० ।

22. इलियोस प्रौद्योगिकी संस्थान, चिकागो, इलियोस ।
23. इलिनोईस विश्वविद्यालय, चिकागो सकिल, चिकागो, इलिनोईस ।
24. इलिनोईस, अर्बाना विश्वविद्यालय, इलिनोईस ।
25. इयोवा राज्य विश्वविद्यालय, ऐम्स, इयोवा ।
26. कंसस राज्य विश्वविद्यालय, मनहट्टन, कंसस ।
27. कंसस, लारेन्स विश्वविद्यालय, कंसस ।
28. कन्ट राज्य विश्वविद्यालय, कैन्ट, ओहियो ।
29. कैन्टकी, लेगिजनगटन विश्वविद्यालय, की ।
30. लुईसियाना राज्य विश्वविद्यालय, बेटन राउश, ला ।
31. मेसच्यूसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान, कैम्ब्रिज, मास ।
32. म्यामी विश्वविद्यालय, ब्राक्सफोर्ड, ओहियो ।
33. मिचीगन, अन्न अर्बर विश्वविद्यालय, मिचीगन ।
34. मिन्नेसोटा, मिन्नेअपोलिस विश्वविद्यालय, मिन्नेसोटा ।
35. मोटाना राज्य विश्वविद्यालय, बोज्मन, मोटाना ।
36. नेब्रास्का, लिक्नोन विश्वविद्यालय, नेब्रास्का ।
37. उस्तरी कालोर्निया राज्य विश्वविद्यालय, रेले, एन० सी० ।
38. नोट्रेडेम, नोट्रेडेम विश्वविद्यालय, इंडियाना ।
39. ओहियो राज्य विश्वविद्यालय, कोलम्बस, ओहियो ।
40. ओक्लाहोमा राज्य विश्वविद्यालय, स्टिनवाटर ओकला ।
41. ओक्लाहोमा नार्मन विश्वविद्यालय, ओकला ।
42. ओरेगन, यूजीन विश्वविद्यालय, ओर ।
43. पैन सिलवानिया राज्य विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय पार्क, पा ।
44. प्रात संस्थान, ब्रूक्लिन, न्यूयार्क ।
45. रेनसीलियार पोलिटेक्नीक संस्थान, ट्राय, न्यूयार्क ।
46. रोहडे आईलैण्ड, स्कूल आफ डिजाइन प्राविडेस, आर० आई० ।
47. राईस विश्वविद्यालय, हाउसटन, टेक्सास ।
48. लोस एंजिल्स की दक्षिण कैलीफोर्निया विश्वविद्यालय, कैलिफोर्निया ।
49. सिराक्यूज विश्वविद्यालय, सिराक्यूज, न्यूयार्क ।
50. टेक्साज ए० एंड एम० विश्वविद्यालय कालेज स्टेशन, टेक्साज ।
51. टेक्साज प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ल्यूबोक, टेक्साज ।
52. टेक्साज आस्टिन विश्वविद्यालय, टेक्साज ।
53. टयूलेन विश्वविद्यालय, न्यू ओर्लीस, ला ।
54. उटाहा, साल्ट लेक सीटी विश्वविद्यालय, उटाहा ।
55. बिस्जीनिया कोलोर्टट्ट, दा ।
56. विरजोनिया पोलिटेक्नीक संस्थान, ब्लेक सबर्ग, वा ।
57. येल विश्वविद्यालय, न्यू हैवन, कान ।
58. वाल राज्य विश्वविद्यालय, म्यूनीई, इंडियाना ।
59. हैम्पटन संस्थान, हैम्पटन, विरजीनिया ।
60. हवाई विश्वविद्यालय, होनोलुल ।
61. इदाहो, मास्को विश्वविद्यालय, इदाहो ।

62. उत्तरीय डकोटा राज्य विश्वविद्यालय, फारगो, उत्तरडकोटा ।
63. दक्षिण-पश्चिमीय नईसियाना, लफायेट्ट विश्वविद्यालय, लुईसियाना ।
64. टेप्पेसी, नोक्साविल्ले विश्वविद्यालय, टेप्पेसी ।
65. टस्कगी संस्थान, अलाबामा ।
66. वाशिंगटन राज्य विश्वविद्यालय, वाशिंगटन ।
67. बोस्टन वास्तुशिल्प केन्द्र, बोस्टन, मासाचेसेट्स ।

(ख) प्राधिकृत अमरीकी विश्वविद्यालयों, संस्थानों द्वारा वास्तुशिल्प में प्रदान की गई (मास्टर तथा डाक्टर) की स्नातक डिग्रियां :—

1. कैलिफोर्निया, बर्कले विश्वविद्यालय, कैलिफोर्निया ।
2. कैथोलिक विश्वविद्यालय, वाशिंगटन, डी० सी० ।
3. न्यूयार्क सीटी विश्वविद्यालय का सीटी कालेज, न्यूयार्क ।
4. क्लेमसन, क्लेमसन विश्वविद्यालय, एम० सी० ।
5. कार्नेल विश्वविद्यालय, ईथाका, न्यूयार्क ।
6. फ्लोरिडा, गैनेसिल्ले विश्वविद्यालय, फ्लोरिडा ।
7. हार्वर्ड विश्वविद्यालय, केम्ब्रिज, मास ।
8. हार्वर्ड विश्वविद्यालय, वाशिंगटन, डी० सी० ।
9. इलिनोईस, अर्घाना विश्वविद्यालय, इलिनोईस ।
10. इयोवा राज्य विश्वविद्यालय, ऐसेस, कंसस ।
11. कंसस राज्य विश्वविद्यालय, मन्हटन, कंसस ।
12. कंसस, लोरन्स विश्वविद्यालय, कंसस ।
13. कैट राज्य विश्वविद्यालय, कैट, ओहियो ।
14. मैसाच्यूट्स प्रौद्योगिकी संस्थान, केम्ब्रिज, मैसाच्यूट्स ।
15. मिचीगन, अन्न अर्बर विश्वविद्यालय, मिचीगन ।
16. मिन्नेसोटा, मिन्ने अपोलिस विश्वविद्यालय, मिन्नेसोटा ।
17. नेब्रास्का, लिडकोलन विश्वविद्यालय, नेब्रास्का ।
18. न्यू मेक्सिको, एलब्रकक विश्वविद्यालय, एन० एम० ।
19. ओक्लाहोमा राज्य विश्वविद्यालय, स्टिलवाटर, ओक्ला ।
20. ओक्लाहोमा नार्मन विश्वविद्यालय, ओक्ला ।
21. ओरिगन, यजीन विश्वविद्यालय, ओर ।
22. पेनसिलवानिया, फिन्डेल्फिया विश्वविद्यालय, पा ।
23. प्राल्ट संस्थान, ब्रुकलिन, न्यूयार्क ।
24. प्रिन्सटन विश्वविद्यालय, प्रिन्सटन, एन० जे० ।
25. रेनसिलर पोलिटेक्नीक संस्थान, ट्राय, न्यूयार्क ।
26. राईस विश्वविद्यालय, हाऊसटन, टेक्साज ।
27. दक्षिण कैलिफोर्निया—लोस एंजिल्स विश्वविद्यालय, कैलिफोर्निया ।
28. सिराक्यूस विश्वविद्यालय, रिमाक्यूज, न्यूयार्क ।
29. टेक्साज ए० एंड एम० विश्वविद्यालय कालेज स्टेशन, टेक्साज ।
30. उटाहा, साल्ट लेक सीटी विश्वविद्यालय, उटाहा ।
31. विस्जीनिया पोलिटेक्नीक संस्थान, ब्लैकसबर्ग, वा ।
32. वाशिंगटन विश्वविद्यालय, सेंट लुईस, गो० ।

33. वार्शिंगटन सीटल विश्वविद्यालय, वार्शिंगटन ।
 34. येल विश्वविद्यालय न्यू हैवन, कान ।
 35. हवाई विश्वविद्यालय, होनोलुलु ।
 36. इवाहो, मास्को विश्वविद्यालय, इवाहो ।
9. ग्रांक लायड राईट प्रतिष्ठान, अमेरिका द्वारा प्रदान किया गया शिवावृत्ति का प्रमाण-पत्र ।

यूगोस्लाविया

10. जग्रेब विश्वविद्यालय, यूगोस्लाविया द्वारा वास्तुशिल्प में प्रदान की गई डाक्ट्रेट डिग्री ।

[सं० एफ० 12-3/72-त० 1]

अ० बू० चन्दोरामणी,
संयुक्त शिक्षा सलाहकार ।